

## होटल प्रबंधन खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, कुफरी, शिमला-12

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और राष्ट्रीय परिषद होटल प्रबंधन और खान-पान तकनालॉजी, नोयडा से सम्बद्ध)

### Institute of Hotel Management, Catering & Nutrition, Kufri, Shimla-12.

(sponsored by the Ministry of Tourism, Govt. of India and affiliated to National Council for Hotel Management & Catering Technology, Noida)

#### कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रोग्राम

### **SKILL TESTING & CERTIFICATION PROGRAMME**

आवेदन प्रपत्र APPLICATION FORM

(उचित कालम भरें)

(tick appropriate box)

1. **कुक- पाँच दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम (35 घंटे)**   
**Cook – 5 days orientation programme of 35 hours**
2. **वेटर - पाँच दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम (35 घंटे)**   
**Waiter – 5 days orientation programme of 35 hours**

कृपया पासपोर्ट  
आकार की फोटो  
चिपकाएं।  
Please paste  
Passport size  
photograph

1. नाम  
Name .....
2. पिता का नाम  
Father's name .....
3. पत्राचार का पता  
Correspondence  
Address .....
4. स्थायी पता  
Permanent Address .....
5. फोन नं: एवं ई-मेल  
Contact & E-mail .....
6. जन्म तिथि  
Date of Birth .....
7. आयु  
Age .....
8. श्रेणी/Category:- (Gen/SC/ST/OBC).....
9. शैक्षिक योग्यता  
Education Qualifications  
(संबंधित स्कूल के द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)  
(to be supported by a certificate issued by the school attended)

कोर्स का नाम Course title	अवधि Duration	स्कूल/विश्वविद्यालय School/University	अंक (प्रतिशत में) % Marks	जिस साल में कोर्स पूरा किया Year of Passing

10. अनुभव  
Experience

संस्था का नाम Organisation	पद Post Held	विभाग Department	कब से Date from	कब तक Date to	कुल अवधि (दिन, महीने, साल) Total duration D/M/Y

11. बैंक खाता नं:  
Bank A/c No .....
12. बैंक का नाम एवं शाखा:  
Bank & Branch Name .....
13. खाताधारक का नाम:  
Account Holder Name .....
14. आई०एफ०एस०सी०  
कोड/ IFSC Code: .....
15. आधार संख्या  
Aadhar No: .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है और अगर यह गलत पाई जाती है, तो मेरा कोर्स में प्रवेश रद्द कर दिया जाए।

Certificate that the above details are true and that if found incorrect my admission is likely to be cancelled.

हस्ताक्षर Signature